

वर्माणित किया जाता है कि इस मर्ही पुस्त
में मशीन के द्वारा अंकित कुल 100 एक सौ
पन्ने हैं यह मार्ही पुस्त श्री...~~अमर~~...
सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमण्डल...~~जल~~...को निर्गत

इया जारी है।

17/04/21

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, मधुबनी

C.M.
17/04/21

Sch. XLV—Form No. 134

DIVISION

SUB-DIVISION

Measurement Book

No. 2511

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of work—
 Situation of work—
 Agency by which work is executed—
 Date of measurement—
 No. and date of agreement.
 (These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

1

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					<u>I.E.T. on A/C Bill.</u>
					<u>Record measurement</u>
N.W.—	const. of Rd. from Jayash house Gera tal to Chintanaria to Banikam tal Kalikapur Under m.m.r.s.y. (S.C.)				
N.A.—	MIS Narayam Inter Prises.				
A.Y. No—	108 SBD 19020-21				
Date of start—	17.9.2020				
Date of completion—	16.9.21				

(1) Setting out pillars—

$$= \text{do} - \text{do} - \text{E.I.J. } 2 \text{ ft} \\ = 18 \text{ nos.}$$

(2) Clearing & grubbing Rd.

Land - do - E.I.J.

$$15 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 840.00 \text{ m}^2$$

$$10 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 525.00 \text{ m}^2$$

$$9 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 945.00 \text{ m}^2$$

$$7 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 735.00 \text{ m}^2$$

$$6 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 630.00 \text{ m}^2$$

$$5 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 1050.00 \text{ m}^2$$

$$4 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 945.00 \text{ m}^2$$

$$3 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 735.00 \text{ m}^2$$

$$2 \times 30 \text{ m} \times 3.50 = 70.00 \text{ m}^2$$

$$6475.00 \text{ m}^2$$

Continuation

$$\div 10,000 = 0.65 \text{ Hec.}$$

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no (1); - plv filling					
Joint Seams all - - - of E12					
Qty. ride Trm BP - 25					
Qty = 24 m ³					
@ Rs 28.08/m ³					Rs 914 = 00
item no (2); - plv drainage					
spout - - - - - of E12					
Qty. ride Trm BP - 25					
Qty = 4 m ³					
@ Rs 625.32/m ³					Rs 2501 = 00
item no (3); - const' of					
embankment soil - - - of E12					
Qty. ride Trm BP - 26					
Qty = 349.86 m ³					
@ Rs 190.36/m ³					Rs 66599 = 00
(ii) for 100m foot - - E12					
Qty. ride Trm BP - 26					
Qty = 1399.44 m ³					
@ Rs 154.07/m ³					Rs 215612 = 00
item no (4); - E12 in Excavation					
Qty. ride Trm BP - 26					
Qty = 23.25 m ³					
@ Rs 78.57/m ³					Rs 1757 = 00

Continuation

C.O

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
item no 15 + 12) - providing And laying u.s.b.-50x-1 - of EII					
Qty. side trapezoid - 26 = 1421.26 m ³					
u u u p - 28 = 74.77 m ³					
Total = 1495.03 m ³					
@ Rs 2800.53 / m ²					Rs 4198079/-
item no 16 + 13) - providing And laying u.s.b.-50x-1 - of EII					
Qty. side trapezoid - 26 = 506.25 m ³					
u u u p - 23 = 140.81 m ³					
Total = 647.06 m ³					
@ Rs 3516.23 / m ³					Rs 227521/-
item no 17 14) - concrete + concrete pavement (m-3) of EII					
Qty. side trapezoid - 30					
Qty = 300.25 m ³					
@ Rs 6963.90 / m ³					Rs 2090911/-
Total = Rs 1,00,67,386/-					
Add 12% GST = Rs 12,08,086/-					
Add 1% less = Rs 100,674/-					
Add 8% fee = Rs 1,91,950/-					
Total = Rs 1,15,18096/-					
10% Below = Rs 115,1810/-					
Total = Rs 1,03,66,286/-					
deduct proposed bill = Rs 73,75,582/-					
Total = Rs 29,70704/-					

Continuation

25.01.2024
JEC